



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1944 (श10)

(सं० पटना 533) पटना, सोमवार, 18 जुलाई 2022

सं० 13/SWD-07-12/2022-3492/न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

8 जुलाई 2022

विषय:—आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय- 2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment- 9 योजना हेतु सेंटेंज सहित कुल राशि ₹120,16,00,000/- (एक सौ बीस करोड़ सोलह लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।

पटना शहर एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से जल-जमाव से मुक्ति के लिए Design Consultant for Planning, Design & Preparing DPR & Bid Document for Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, Danapur, Phulwarisharif and adjoining area हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति उपरांत विभागीय राज्यादेश सं०-240, दिनांक-05.03.2020 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी क्रम में परामर्शी द्वारा पटना शहर एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु Catchment Area Wise विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कर उपलब्ध कराया गया है, जो Catchment-1 से Catchment-9 तक कुल 09 क्षेत्र में विभाजित है। इसी क्रम में Catchment-9 क्षेत्र का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त हुआ है।

2. पटना शहर एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में विगत वर्षों में जल जमाव की समस्या के कारण शहर वासियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। उक्त समस्या के समाधान हेतु Catchment- 9 क्षेत्र में Strom Water Drainage योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। इसके अन्तर्गत कुल 18.28 किलोमीटर नाला का निर्माण किया जायेगा।

3. इस Storm Water Drainage योजना का मुख्य उद्देश्य पटना शहर के नगर निगम, पटना, नगर परिषद्- दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ क्षेत्र में जल निकासी का विस्तृत प्रबन्धन विकसित करना है, जिससे नगर निगम, पटना क्षेत्र के छपरा-पटना हाईवे से पूर्व का क्षेत्र, दीदारगंज, पटना सिटी, खामजी बेगम कॉलोनी, मारुफगंज, सुमित्रा नगर क्षेत्र के लगभग 1700 हेक्टेयर क्षेत्र की जल जमाव की समस्या का समाधान किया जा सकेगा।

4. योजना का प्राक्कलन बुडको द्वारा तैयार किया गया है, जिसपर मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज, दक्षिण बिहार उप भाग, बुडको द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
5. योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) होगी।
6. योजना के लिए स्वीकृत राशि का प्रबंध षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम, पटना को मिलने वाली विशेष पैकेज की राशि से किया जायेगा। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नवत् है –
(राशि लाख में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	वर्षवार व्यय की जाने वाली कुल राशि
1	2022-23	4806.00
2	2023-24	4806.00
3	2024-25	2404.00
Total		12016.00

7. **बजट शीर्ष तथा बजट की उपलब्धता :-** षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पटना नगर निगम को मिलने वाले विशेष पैकेज की राशि का उपयोग उक्त स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से राशि नहीं ली जायेगी। बल्कि पटना नगर निगम को षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली विशेष पैकेज की राशि का उपयोग ही इस योजना के लिए किया जायेगा।

9. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-05.07.2022 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-4 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

10. अतः "आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय- 2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-9 योजना हेतु सेंटेंज सहित कुल राशि ₹120,16,00,000/- (एक सौ बीस करोड़ सोलह लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति" पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 533-571+500-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>